

कार्यालय सहायक यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड झाबुआ (म.प्र.)

क्रमांक / 528 जल परिक्षण प्र.शा. / स.य. / लो. स्वा. या. / 2025 झाबुआ दिनांक 05/05/2025
प्रति,

पाचार्य

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

मोरङ्गिया (रानापुर) जिला - झाबुआ (म.प्र.)

विषय:- जल परिक्षण के संबंधित।

संदर्भ:- आपका का पत्र क्र./ 527/2025/दिनांक 29/04/2025
137

उपरोक्त विषय में लेख है कि, संदर्भित पत्र के साथ संलग्न जल नमूने का देयक 2400.00 रु. डी.डी./चेक द्वारा जो कि कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड झाबुआ के नाम से देय हो जमा करावे। ताकि आपको समय पर रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

संलग्न :- देयक खाता नं. 2400/- मात्र।

सहायक यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
उपखण्ड झाबुआ (म.प्र.)

पृष्ठ क्रमांक 524/ जल परिक्षण प्र.शा. / स.य. / लो. स्वा. या. / 2025 झाबुआ दिनांक 05/05/2025
प्रतिलिपि:-

- 1 कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार, चेक /

सहायक यंत्री

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
उपखण्ड झाबुआ (म.प्र.)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
WATER QUALITY TESTING LABORATORY

PUBLIC HEALTH ENGINEERING SUB DIVISION, JHABUA (M.P.)

No. 15 Lab/PHE/AL - Jhabua

Date 29/4/2025


प्रचार्य, एकलव्य आदर्श आवासिय विद्यालय
मोरङ्गिया (रानापुर) जिला - झाबुआ (म.प्र.)

Ref. your letter No. क्र.स्था/2025/137

Date 29/4/2025

S.No.	Particulars	No. of Sample	Rate	Unit	Amount
1.	रासायनिक परीक्षण	02	1200/-	प्रति	2400=00
TOTAL					2400=00

(दो सहस्रचार लो मात्र)


Chemist
W.T.L. PHE
Sub division JHABUA


Assistant Engineer
Public Health Engineering
Sub division JHABUA


PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

D. No. 528

Dated: 05/05/2025

It is certified that an inspection team headed by MR. DAYALU RATHOD (ASSISTANT ENGINEER)
(Name of Officers with designation) from PUBLIC HEALTH ENGINEERING SUB: DIVISION
(Name of Department/ Office) inspected the EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, MORDUNDEYA (M.P.)
(Name & Address of the school) on 29/04/2025 (date of inspection) and found that the
EMRS MORDUNDEYA (Name of school) has safe drinking water
facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic
sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the Central/
State/ U.T. Govt.

The above is valid for a period of ONE YEAR

Signature with Seal:  Assistant Engineer
P.H.E. Sub Dn. Jabalpur (M. P.)

Name Smt. Dayalu Rathod

Designation Assistant Engineer

Name & Address of the Office / Department : P.H.E. D. Jabalpur

To

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL
SCHOOL, MORDUNDEYA (M.P.)

(Name & Address of the Institution)

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.